

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 13 अप्रैल 2019 — चैत्र 23, शक 1941

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2019

शुद्धिपत्र

फा. क्र-08/चार/लो.स.चु./2019/4200.— लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिये तृतीय चरण हेतु लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 01—सरगुजा(अ.ज.जा.) के अन्तर्गत समाहित विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 8—सामरी (अ.ज.जा.) के लिये मतदान समय परिवर्तन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 464/EPs/2019(3-A) दिनांक 13 अप्रैल, 2019 एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(सुब्रत साहू)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2019 — 23 चैत्र, 1941 (शक)

**अधिसूचना**

सं. 464/ईपीएस/2019 (3-क). — यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अंतर्गत जारी दिनांक 28 मार्च, 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 464/ईपीएस/2019 (3) के द्वारा बिहार राज्य में 25— खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 76— सिमरी बख्तियारपुर, 148—अलौली (अ.जा.) और 150— बेलदौरविधान सभा खंडों के संबंध में पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक का समय, और छत्तीसगढ़ राज्य में 01—सरगुजा (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 08—सामरी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन खंड में (मतदान केंद्र सं. 124 एवं 125 के लिए) पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक का समय 'मतदान के समय' के रूप में निर्धारित किया है, जबकि शेष मतदान केंद्रों के लिए मतदान का समय पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक है, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार और छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सहित सभी अन्य तथ्यात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में 25—खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य में 01— सरगुजा (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पूर्वोक्त विधान सभा खंडों में मतदान का समय परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, ऊपर सन्दर्भित दिनांक 28 मार्च, 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 464/ईपीएस/2019(3) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के नीचे की तालिका में, बिहार राज्य की 25—खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 76—सिमरी बख्तियारपुर, 148—अलौली (अ.जा.) और 150—बेलदौर विधान सभा खंडों और छत्तीसगढ़ राज्य के 01—सरगुजा (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 08—सामरी (अ.ज.जा.) विधान सभा खंड के सामने कॉलम (4) में विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खंड	मतदान की तारीख	मतदान का समय
1	2	3	4
बिहार	25— खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र		
	76— सिमरी बख्तियारपुर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
	148— अलौली (अ.जा.)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
	150— बेलदौर	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
छत्तीसगढ़	01—सरगुजा (अ.ज.जा.)		
	08—सामरी (अ.ज.जा.) वि. स. निर्वाचन क्षेत्र (सभी मतदान केंद्रों के लिए)	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक

शेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/विधान सभा खंडों के लिए मतदान का समय वही रहेगा जैसा कि अधिसूचना संख्या 464/ईपीएस/2019(3) दिनांक 28 मार्च, 2019 के अनुसार है।

आदेश से,

हस्ता./—

**(सुमित मुखर्जी)**

प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 13th April, 2019 — 23 Chaitra, 1941(Saka)

NOTIFICATION

No. 464/EPS/2019(3-A). — Whereas, the Election Commission of India by its Notification No. 464/EPS/2019(3) dated 28th March, 2019 issued under Section 30 read with Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) has fixed 'hours of poll' in respect of 76-Simri Bakhtiarapur, 148-Alauli (SC) and 150-Beldaur Assembly Segments of 25-Khagaria Parliamentary Constituency in the State of Bihar from 7.00 AM to 6.00 PM, and 08-Samri (ST) Assembly Segment of 01-Surguja (ST) Parliamentary Constituency in the State of Chhattisgarh from 7.00AM to 3.00PM (For Polling Station No.124 & 125), while for rest of Polling Stations from 7.00AM to 6.00PM, and

Whereas, after considering the report of Chief Electoral Officers, Bihar and Chhattisgarh and taking into account all other material circumstances including the Law and Order situation, the Election Commission of India has decided to change the hours of poll in the aforesaid Assembly Segments of 25-Khagaria Parliamentary Constituency in the State of Bihar and Assembly Segments of 01-Surguja (ST) in the state of Chhattisgarh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 464/EPS/2019(3) dated 28th March, 2019 referred to above namely :-

In the Table below the Schedule to the said Notification, for the existing entry in column (4), against 76-Simri Bakhtiarapur, 148-Alauli (SC) and 150-Beldaur Assembly Segments of 25 Khagaria Parliamentary Constituency in the State of Bihar and 08-Samri (ST) Assembly Segments of 01-Surguja (ST) Parliamentary Constituency in the State of Chhattisgarh, the following entries shall be substituted, namely :-

State	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
1	2	3	4
Bihar	25-Khagaria PC		
	76-Simri Bakhtiarapur	23rd April, 2019 (Tuesday)	7.00am to 4.00pm
	148-Alauli (SC)	23rd April, 2019 (Tuesday)	7.00am to 4.00pm
	150-Beldaur	23rd April, 2019 (Tuesday)	7.00am to 4.00pm
Chhattisgarh	01-Surguja (ST)		
	08-Samri (ST) AC (For all Polling Stations)	23rd April, 2019 (Tuesday)	7.00am to 5.00pm

The hour of Poll for the rest of the Parliamentary Constituencies/Assembly Segments will remain the same as per the notification No. 464/EPS/2019(3) dated 28th March 2019.

By order

Sd/-  
(Sumit Mukherjee)  
Principal Secretary to the  
Election Commission of India.